



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

3 मार्च 1933 (श0)
(सं0 पटना 30) पटना, सोमवार, 23 जनवरी 2012

ऊर्जा विभाग

अधिसूचना

11 जनवरी 2012

सं0 प्र01/रा0स्था0-24/2011-01-97—माननीय उच्च न्यायालय द्वारा एम0जे0सी0 संख्या-3408/2010 अशोक कुमार गुप्ता बनाम राज्य सरकार एवं अन्य में दिनांक 14.10.2011 को पारित न्यायादेश के अनुपालन में श्री अशोक कुमार गुप्ता, विद्युत कार्यपालक अभियंता, जिन्हे ऊर्जा विभाग की अधिसूचना संख्या-14 दिनांक 28.09.2011 द्वारा ऊर्जा विभाग में समायोजित किया गया था को ऊर्जा विभाग के अधिसूचना संख्या-15 सहपठित ज्ञापांक-4724 दिनांक 31.10.2011 द्वारा श्री अशोक कुमार गुप्ता की सेवा भवन निर्माण विभाग में विद्युत कार्यपालक अभियंता के पद पर पदस्थापित करने हेतु प्रतिनियुक्ति के आधार पर सौंपी गयी।

भवन निर्माण विभाग ने अपने अधिसूचना ज्ञापांक 10850 (भ0), दिनांक 05.12.2011 द्वारा वित्त विभाग के संकल्प संख्या 6655, दिनांक 21.07.2011 के आलोक में श्री गुप्ता को बोर्ड/निगम का कर्मी मानते हुए उनकी सेवा ऊर्जा विभाग को वापस कर दी है।

चूँकि श्री अशोक कुमार गुप्ता, विद्युत कार्यपालक अभियंता की सेवा ऊर्जा विभाग के अधिसूचना संख्या-14, दिनांक 28.09.2011 सहपठित ज्ञापांक 4422 दिनांक 28.09.2011 द्वारा ऊर्जा विभाग में समायोजित कर दी गई है, इसलिए श्री गुप्ता बोर्ड/निगम के कर्मी नहीं है। उक्त संकल्प श्री गुप्ता पर लागू नहीं होता है।

उपर्युक्त के आलोक में श्री अशोक कुमार गुप्ता, विद्युत कार्यपालक अभियंता की सेवा पुनः भवन निर्माण विभाग में विद्युत कार्यपालक अभियंता के पद पर पदस्थापित करने हेतु प्रतिनियुक्ति के आधार पर सौंपी जाती है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

शम्भु नाथ मिश्र,

सरकार के संयुक्त सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 30-571+100-डी0टी0पी0।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>